



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 अग्रहायण, 1941 (श०)

संख्या- 947 राँची, शुक्रवार,

22 नवम्बर, 2019 (ई०)

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

पत्र संख्या-13/आई.पी.एस.-119/2019- 6220--

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.),
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक- 19 नवम्बर, 2019 ई.।

विषय:- श्री सुनील भास्कर, भा.पु.से. (2007) के द्वारा पदस्थापन की प्रतीक्षा में बितायी गयी प्रभार रहित अवधि (दिनांक-30.06.2019 से 30.07.2019 तक) की सेवा विनियमित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री सुनील भास्कर, भा.पु.से. (2007) ने विभागीय अधिसूचना सं.-3435, दिनांक-28.06.2019 के आलोक में दिनांक-29.06.2019 के अपराहन में पुलिस अधीक्षक, पाकुड़ का पदभार त्याग कर दिनांक-04.07.2019 को पुलिस मुख्यालय में योगदान दिया। पुनः विभागीय अधिसूचना सं.-4067, दिनांक-31.07.2019 के आलोक में

इन्होंने दिनांक-31.07.2019 को पुलिस अधीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची का पदभार ग्रहण किया। इस बीच श्री भास्कर, भा.पु.से. दिनांक-30.06.2019 से 30.07.2019 तक प्रभार रहित अवधि में रहे जिसमें इनका कोई दोष परिलक्षित नहीं होता है।

2. उक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा श्री सुनील भास्कर, भा.पु.से. के दिनांक-30.06.2019 से 30.07.2019 तक की प्रभार सहित अवधि को भारत सरकार के मौलिक नियम-9(6) तथा इसके सदृश राज्य सेवा संहिता के नियम-14 के आलोक में निम्नांकित रूप से कर्तव्य अवधि के रूप में निम्नांकित रूप से कर्तव्य अवधि के रूप में सेवा विनियमित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है -

(i) दिनांक-30.06.2019 से 30.07.2019 तक - पदग्रहण काल

(ii) दिनांक-04.07.2019 से 30.07.2019 तक - पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि।

3. श्री सुनील भास्कर, भा.पु.से. को उक्त अवधि के लिए कोटि वेतन देय होगा।

4. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति तथा प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

अनिल कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव
